



Azadi Ka Amrit Mahotsav

पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक का कार्यालय, मुंबई

भारत सरकार

01 अगस्त 2022

सार्वजनिक सूचना

भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ बस कुछ ही दिन दूर है, इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए, भारत सरकार ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' शुरू किया है। इस संदर्भ में, बौद्धिक सम्पदा कार्यालय द्वारा ट्रेडमार्क संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। जिसमें हम पक्षकारों को लंबित विरोध (Opposition) और परिशोधन (Rectification) मामलों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम उन पक्षों को भी प्रोत्साहित करते हैं जिन्होंने पहले ही अपने मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, परन्तु उन्हें पहले के विवाद के औपचारिक निपटान के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री (टीएमआर) को रिपोर्ट करना अभी भी लंबित है। यदि आपने पहले ही पत्र भेज दिया है और ऐसे मामलों में कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है, तो आप 'आजादी का अमृत महोत्सव' के दौरान नीचे दिए गए लिंक पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पर फिर से मामला दर्ज कर सकते हैं।

<https://ipindiaonline.gov.in/trademarkefiling/OppositionSettlementRequest.aspx>

उपरोक्त लिंक 02 अगस्त, 2022 से 02 अक्टूबर, 2022 तक सक्रिय रहेगा।

उपरोक्त ऑनलाइन पोर्टल पर समझौता पत्र (settlement letter) और निकासी अनुरोध (withdrawal request) के साथ आपके पहले से तय मामले के पंजीकरण पर, हम व्यापार चिह्न अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करके मामले को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के समक्ष निपटाएंगे। किसी भी अन्य प्रश्न के मामले में आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की उपयुक्त शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

आइये 'आजादी का अमृत महोत्सव' विवाद मुक्त बौद्धिक सम्पदा की व्यवस्था लाए।

हस्ताक्षरित/-

(प्रो. उन्नत पी पंडित)

पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक